

Num

Chapter 18

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
 אֶת-תְּשׂוּ אִתְּךָ אָבִיךָ וּבֵית-וּבְנֵיךָ אִתְּךָ אֶהְיֶה אִתְּךָ וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵל-יְהוֹשֻׁעַ אֵל-יְהוֹשֻׁעַ
 को-उठाएंगे तेरे-साथ तेरे-पिता-का और-घराना- और-तेरे-पुत्र तू हाकरूँ से- यहोवा-ने और-कहा
[H0853](#) [H5375](#) [H0854](#) [H0001](#) [H0175](#) [H0413](#) [H3068](#) [H0559](#)

כְּהִנְחַלְתֶּם: עֲוֹן אֶת-תְּשׂוּ אִתְּךָ וּבְנֵיךָ וְאֶת-הַמִּקְדָּשׁ עֲוֹן
 तुम्हारी-याजकता-का अधर्म को-उठाएंगे तेरे-साथ और-तेरे-पुत्र और-तू पवित्रस्थान-का अधर्म
[H5750](#) [H5771](#) [H0853](#) [H5375](#) [H0854](#) [H4720](#) [H5771](#)

यहोवा ने हाकरूँ से कहा, “तुम, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पिता का परिवार अब किसी भी बुराई के लिए उत्तरदायी है जो पवित्र स्थान के विरुद्ध की जाएगी। तुम और तुम्हारे पुत्र उन बुराइयों के लिए उत्तरदायी होंगे जो याजकों के विरुद्ध होंगी।

2
 וְלֵוִי וְיָגֵם אֶת-אֶחָיו מִטֵּה לְוִי אֶת-שְׂבֻט-לְוִי וְיָגֵם אֶת-אֶחָיו מִטֵּה לְוִי
 तुझ-से और-वे-मिलें अपने-साथ निकट-ला तेरे-पिता-का गोत्र लेवी-का गोत्र तेरे-भाइयों को- और-भी
[H0854](#) [H7126](#) [H0001](#) [H7626](#) [H3878](#) [H4294](#) [H0251](#) [H0853](#) [H1571](#)

הַעֲדוּת: אֶת-לְפָנֵי אֶת-וּבְנֵיךָ וְאֶת-יִשְׂרָאֵל
 साक्षी-का तम्बू के-सामने तेरे-साथ और-तेरे-पुत्र और-तू और-तेरी-सेवा-करें
[H5715](#) [H0168](#) [H6440](#) [H0854](#) [H8334](#)

अन्य लेखिवंशी लोगों को अपना साथ देने के लिए अपने परिवार समूह से लाओ। वे तुम्हारी और तुम्हारे पुत्रों की सहायता साक्षी के पवित्र तम्बू के कार्यों को करने में करेंगे।

3
 וְיָגֵם אֶת-אֶחָיו מִטֵּה לְוִי אֶת-שְׂבֻט-לְוִי וְיָגֵם אֶת-אֶחָיו מִטֵּה לְוִי
 और-के- पवित्रस्थान-के पात्रों के- परन्तु तम्बू-की सारे- और-रखवाली तेरी-रखवाली और-वे-रखें
[H0413](#) [H6944](#) [H3627](#) [H0413](#) [H0389](#) [H0168](#) [H3605](#) [H4931](#) [H4931](#) [H8104](#)

אֶת-נְסִי: אֶת-נְסִי אֶת-נְסִי אֶת-נְסִי
 तुम भी- वे भी- वे-मरें और-न- वे-निकट-आएं नहीं वेदी
[H1571](#) [H1992](#) [H1571](#) [H4191](#) [H3808](#) [H7126](#) [H3808](#) [H4196](#)

लेवी परिवार के वे लोग तुम्हारे अधीन हैं। वे उन सभी कार्यों को करेंगे जिन्हें तम्बू में किया जाना है। किन्तु उन्हें वेदी या पवित्र स्थान की चीजों के पास नहीं जाना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे ते वे मर जायेंगे और तुम भी मर जाओगे।

4
 וְיָגֵם אֶת-אֶחָיו מִטֵּה לְוִי אֶת-שְׂבֻט-לְוִי וְיָגֵם אֶת-אֶחָיו מִטֵּה לְוִי
 तम्बू-की सेवा के-लिए-सब मिलापवाले-की तम्बू रखवाली को- और-वे-रखें तुझ-से और-वे-मिलें
[H0168](#) [H5656](#) [H3605](#) [H4150](#) [H0168](#) [H4931](#) [H0853](#) [H8104](#)

אֶת-נְסִי: אֶת-נְסִי אֶת-נְסִי
 तुम्हारे-पास निकट-आएं न- और-पराया
[H0413](#) [H7126](#) [H3808](#)

वे तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हारे साथ काम करेंगे। वे मिलापवाले तम्बू की देखभाल करने के उत्तरदायी होंगे। सभी कार्य, जिन्हें तम्बू में किया जाना चाहिए, वे करेंगे। अन्य कोई भी उस स्थान के निकट नहीं आएगा जहाँ तुम हो।

5
 וְיָגֵם אֶת-אֶחָיו מִטֵּה לְוִי אֶת-שְׂבֻט-לְוִי וְיָגֵם אֶת-אֶחָיו מִטֵּה לְוִי
 क्रोध फिर हो और-न- वेदी-की रखवाली और-को पवित्रस्थान-की रखवाली को और-तुम-रखी
[H5750](#) [H1961](#) [H3808](#) [H4196](#) [H4931](#) [H0853](#) [H6944](#) [H4931](#) [H0853](#) [H8104](#)

עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:
 पर-पुत्रों इस्राएल-के
[H3478](#)

“पवित्र स्थान और वेदी की देखाभाल करने के उत्तरदायी तुम हो। मैं इस्राएल के लोगों पर फिर क्रोधित होना नहीं चाहता।

इन सबको सर्वाधिक पवित्र चीजों के रूप में खाओ। तुम्हारे परिवार का हर एक पुरुष इसे खाएगा। तुम्हें इसको पवित्र मानना चाहिए।

וְהָיָה לְךָ לְחֵם וְלֶחֶם לְבָנֶיךָ וְלֶחֶם לְבָנֹתֶיךָ וְלֶחֶם לְבָנֵי אִשְׁרָאֵל וְלֶחֶם לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל
 और-यह- 11
 तेरे-लिए 11
 उठाई-भेंट 11
 उनके-दान-की 11
 सब-के-लिए- 11
 हिलाई-भेंट 11
 पुत्रों 11
 इस्राएल-की 11
 तुझे 11
 मैंने-दी-हैं 11

וְלֶחֶם לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֶחֶם לְבָנֹתֶיךָ וְלֶחֶם לְבָנֵי אִשְׁרָאֵל וְלֶחֶם לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל
 और-तेरे-बेटियों-को 11
 और-तेरे-पुत्रों-को 11
 तेरे-साथ 11
 विधि-के-रूप-में- 11
 सदा-की 11
 सब- 11
 जो-शुद्ध-है 11
 तेरे-घर-में 11
 खाए 11

אֵתוֹ :
 उसे
 H0853

“और वे सभी जो इस्राएल के लोगों द्वारा उत्तोलन भेंट के रूप में दी जाएंगी, तुम्हारी ही होंगी। मैं इसे तुमको, तुम्हारे पुत्रों और तुम्हारी पुत्रियों को देता हूँ। यह तुम्हारा भाग है। तुम्हारे परिवार का हर एक व्यक्ति जो पवित्र होगा, इसे खा सकेगा।

כָּל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה
 12
 सब 12
 उत्तम 12
 तेल-का 12
 और-सब- 12
 उत्तम 12
 दाखमधु-का 12
 और-अन्न-का 12
 उनका-पहला-फल 12
 जो- 12
 वे-देगे 12

לַיהוָה :
 तुझे
 मैंने-दिया
 H5414
 לַיהוָה :
 यहोवा-को
 H3068

“और मैं सारा अच्छा जैतून का तेल, सारी सर्वोत्तम नयी दाखमधु और अन्न तुम्हें देता हूँ। ये वे चीजें हैं जिन्हें इस्राएल के लोग मुझे अर्थात् अपने यहोवा को देते हैं। ये वे पहली चीजें हैं जिन्हें वे अपनी फसल पकने पर इकट्ठी करते हैं।

כָּל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה
 13
 पहले-फल 13
 सब-के- 13
 जो 13
 उनकी-भूमि-में-है 13
 जो- 13
 वे-लाएंगे 13
 यहोवा-को 13
 तेरा 13
 होगा 13
 सब- 13
 जो-शुद्ध-है 13

בְּבֵיתוֹ :
 उसे-खाए
 H0398
 בְּבֵיתוֹ :
 तेरे-घर-में
 H0398

जब लोग अपनी फसलें इकट्ठी करते हैं तब लोग पहली चीज यहोवा के पास लाते हैं। अतः ये चीजें मैं तुमको दूँगा और हर एक व्यक्ति जो तुम्हारे परिवार में पवित्र है, इसे खा सकेगा।

כָּל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה
 14
 सब- 14
 समर्पित-वस्तु 14
 इस्राएल-में 14
 तेरी 14
 होगी 14

“और इस्राएल में हर परक चीज जो यहोवा को दी जाती है, तुम्हारी है।

כָּל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה
 15
 सब- 15
 जो-पहले-खोलता-है 15
 गर्भ 15
 सब-के-लिए- 15
 शरीर 15
 जो- 15
 वे-चढ़ाएंगे 15
 यहोवा-को 15
 आदमी-में 15
 और-पशु-में 15

וְכָל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה וְכָל הַבְּרִיאָה
 और-पशु-में 15
 पहिलौठा- 15
 और-को 15
 आदमी-का 15
 पहिलौठा 15
 को 15
 तू-छुड़ाना 15
 छुड़ाकर 15
 परन्तु 15
 तेरा 15
 वह-होगा- 15

הַבְּרִיאָה :
 अशुद्ध-का
 H2931
 הַבְּרִיאָה :
 तू-छुड़ाना
 H6299

“किसी भी परिवार में पहलौठा बालक या जानवर यहोवा गी भेंट होगा और वह तुम्हारा होगा। किन्तु तुम्हें प्रत्येक पहलौठे बच्चे और हर एक पहलौठे अशुद्ध पशु को फिर को खरीदने के लिए स्वीकार करना चाहिए। तब पहलौठा बच्चा फिर उस परिवार का हो जाएगा।

שְׁקָלִים	חֲמִשָּׁת	כֶּסֶף	בְּעֶרְכָּהּ	תַּפְרָהּ	חֹדֶשׁ	מִבֶּן	וּפְדוּיוֹ
शकेल	पांच	चाँदी	तेरे-मूल्य-के-अनुसार	तू-छुड़ाना	महीने	एक-महीने-की-उम्र-से-	और-उसका-छुड़ाया-हुआ
H8255	H2568	H3701	H6187	H6299	H2320		H6299

בְּשָׂקֶל	הַקֹּדֶשׁ	עֶשְׂרִים	גֵּרָה	הוּא:
शकेल-के-अनुसार	पवित्रस्थान-के	बीस	गेरा	वह-है
H8255	H6944	H6242	H1626	H1931

जब वे एक महीने के हो जाए तब तुम्हें उनके लिए भुगतान ले लेना चाहिए। उसका मूल्य दो आँस चाँदी होगी।

אֵיךְ	בְּכֹרֶךָ	שֹׁר	אֶי-	בְּכֹר	כָּשָׁב	אֶי-	בְּכֹר	עֹז	לֹא	תַּפְרָהּ	קֹדֶשׁ
परन्तु	पहिलौठा-	बैल-का	या-	पहिलौठा	भेड़-का	या-	पहिलौठा	बकरी-का	नहीं	तू-छुड़ाना	पवित्र
H0389	H1060	H7794		H1060	H3775		H1060	H5795	H3808	H6299	H6944

הֵם	אֶת-	רָחֵם	תִּזְרַק	עַל-	הַמִּזְבֵּחַ	וְאֶת-	חֲלָבָם	תִּקְטִיר	אֲשֶׁה
वे-हैं	को-	उनका-लहू	तू-छिड़कना	पर-	वेदी	और-को-	उनकी-चर्बी	तू-जलाना	अग्निबलि
H1992	H0853	H1818	H2236		H4196	H0853	H2459	H0801	

לְרִיחַ	גִּיחָח	לְיְהוָה:
सुगन्ध-के-लिए	सुखदायक	यहोवा-के-लिए
H7381	H5207	H3068

“किन्तु तुम्हें पहलौठे गाय, भेड़ या बकरे के लिए भुगतान नहीं लेना चाहिए। वे पशु पवित्र हैं वे शुद्ध हैं। उनका खून वेदी पर छिड़को और उनकी चर्बी जलाओ। यह भेंट अग्नि द्वारा समर्पित है। इस भेंट की सुगन्ध मेरे लिए अर्थात् यहोवा के लिए मधुर सुगन्ध होगी।

וּבְשָׂרָם	יְהוָה-	לָךְ	כַּחזָה	הַתְּנוּפָה	וּכְשֹׁק	הַיָּמִין	לָךְ	יְהוָה:
और-उनका-मांस	होगा-	तेरा	जैसे-छाती	हिलाई-भेंट-की	और-जैसे-जांघ	दाहिनी	तेरा	होगा
H1320	H1961		H2373	H8573	H7785	H3225	H1961	H1961

किन्तु इन पशुओं का माँस तुम्हारा होगा। और उत्तोलन भेंट की छाती भी तुम्हारी होगी। अन्य भेंटों की दायी जांघ तुम्हारी होगी।

וְכָל	תְּרוּמַת	הַקֹּדֶשׁ	אֲשֶׁר	יִרְמוּ	בְּנֵי-	יִשְׂרָאֵל	לְיְהוָה	נִתְּנָה	לָךְ
सब	उठाई-भेंटें	पवित्र-वस्तुओं-की	जो	उठाएंगे	पुत्र-	इसाएल-के	यहोवा-को	मैंने-दी-हैं	तुझे
H3605	H8641	H6944				H3478	H3068	H5414	

וּלְבָנָיִךְ	וּלְבָנֹתַיִךְ	אִתְּךָ	לְחַק-	עֹלָם	בְּרִית	מִלַּח	עֹלָם	הוּא
और-तेरे-पुत्रों-को	और-तेरी-बेटियों-को	तेरे-साथ	विधि-के-रूप-में-	सदा-की	वाचा	नमक-की	सदा-की	वह-है
H1323	H0854		H2706	H5769	H1285	H4417	H5769	H1931

לְפָנַי	יְהוָה	לָךְ	וּלְזַרְעֶךָ	אִתְּךָ:
के-सामने	यहोवा	तेरे-लिए	और-तेरे-वंश-के-लिए	तेरे-साथ
H6440	H3068		H2233	H0854

कोई भी चीज, जिसे लोग पवित्र भेंट के रूप में मुझे चढ़ाते हैं, मैं यहोवा उसे तुमको देता हूँ। यह तुम्हारा हिस्सा है। मैं इसे तुमको और तुम्हारे पुत्रों और तुम्हारी पुत्रियों को देता हूँ। यह यहोवा के साथ की गयी वाचा है जो सदा बनी रहेगी। मैं यह वचन तुमको और तुम्हारे वंशजों को देता हूँ।”

וַיֹּאמֶר	יְהוָה	אֵל-	אֶהְרֹן	בְּאַרְצָם	לֹא	תִּנְחַל	וְחִלָּק	לֹא-	יְהוָה	לָךְ
और-कहा	यहोवा-ने	से-	हारून	उनकी-भूमि-में	नहीं	तू-उत्तराधिकार-पाएगा	और-भाग	न-	होगा	तेरा
H0559	H3068	H0413	H0175	H0776	H3808	H5157		H3808	H1961	

בְּתוֹכָם	אֲנִי	חִלְקָךְ	וְנַחֲלָתְךָ	בְּתוֹךְ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל:	ס
उनके-बीच	मैं	तेरा-भाग	और-तेरा-उत्तराधिकार	के-बीच	पुत्रों	इसाएल-के	—
H8432	H0589		H5159	H8432		H3478	

यहोवा ने हारून से यह भी कहा, “तुम कोई भूमि नहीं प्राप्त करोगे और ऐसी कोई चीज़ नहीं रखोगे जैसी अन्य लोग रखते हैं। मैं, यहोवा, तुम्हारा रहूँगा। इस्राएल के लोग वह देश प्राप्त करेंगे जिसके लिए मैंने वचन दिया है। किन्तु तुम्हारे लिए अपना उपहार मैं स्वयं होऊँगा।

21
 עֲבָדְתֶם עֲבָדְתֶם
 उनकी-सेवा-के बदले-में
 H5656 H2500
 לְנַחֲלָה לְנַחֲלָה
 उत्तराधिकार-के-लिए
 H5159
 בְּיִשְׂרָאֵל בְּיִשְׂרָאֵל
 इस्राएल-में इस्राएल-में
 H3478 H4643
 כָּל- מְעֵשֶׁר
 सब- दशमांश
 H3605 H5414
 נָתַתִּי נָתַתִּי
 मैंने-दिया मैंने-दिया
 H2009 H3878
 הִנֵּה הִנֵּה
 देखो देखो
 H2009 H3878
 לְוִי לְוִי
 लेवी-के लेवी-के
 H2009 H3878
 וְלַבְּנֵי וְלַבְּנֵי
 और-पुत्रों-को और-पुत्रों-को
 H2009 H3878

אֲשֶׁר- הָם
 जो- वे
 H1992
 עֲבָדִים עֲבָדִים
 सेवा-करते-हैं सेवा-करते-हैं
 H5647
 אֶת- אֶת-
 को- को-
 H0853
 עֲבֹדָת עֲבֹדָת
 सेवा सेवा
 H5656
 אֶהְיֶה אֶהְיֶה
 तम्बू तम्बू
 H0168
 מוֹעֵד מוֹעֵד
 मिलापवाले-की मिलापवाले-की
 H4150

“इस्राएल के लोग उनके पास जो कुछ होगा उसका दसवाँ भाग देंगे। इस प्रकार मैं लेवीवंश के लोगों को दसवाँ भाग देता हूँ। यह उनके उस कार्य के लिए भुगतान है जो वे मिलापवाले तम्बू में सेवा करते हुए करते हैं।

22
 וְלֹא- וְלֹא-
 और-न- और-न-
 H3808
 יִקְרְבוּ יִקְרְבוּ
 निकट-आएं निकट-आएं
 H7126
 עוֹד עוֹד
 फिर फिर
 H5750
 בְּנֵי בְנֵי
 पुत्र पुत्र
 H3478
 יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל
 इस्राएल-के इस्राएल-के
 H3478
 אֶל- אֶל-
 के- के-
 H0413
 אֶהְיֶה אֶהְיֶה
 तम्बू तम्बू
 H0168
 מוֹעֵד מוֹעֵד
 मिलापवाले-के मिलापवाले-के
 H4150
 לְשָׂאת לְשָׂאת
 उठाकर उठाकर
 H5375
 חֵטָא חֵטָא
 पाप पाप
 H2399
 לְמוֹת לְמוֹת
 मरने-को मरने-को
 H4191

किन्तु इस्राएल के अन्य लोगों को मिलापवाले तम्बू के निकट कभी नहीं जाना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने पाप के लिए भुगतान करना पड़ेगा और वे मर जाएंगे।

23
 וְעֹבֵד וְעֹבֵד
 और-सेवा-करेगा और-सेवा-करेगा
 H5647
 הַלְוִי הַלְוִי
 लेवी लेवी
 H3881
 הוּא הוּא
 वह वह
 H1931
 אֶת- אֶת-
 को- को-
 H0853
 עֲבֹדָת עֲבֹדָת
 सेवा सेवा
 H5656
 אֶהְיֶה אֶהְיֶה
 तम्बू तम्बू
 H0168
 מוֹעֵד מוֹעֵד
 मिलापवाले-की मिलापवाले-की
 H4150
 וְהֵם וְהֵם
 और-वे और-वे
 H1992
 יִשְׂאוּ יִשְׂאוּ
 उठाएंगे उठाएंगे
 H5375
 עֲוֹנִים עֲוֹנִים
 अपना-अधर्म अपना-अधर्म
 H5771
 חֻקֹּת חֻקֹּת
 विधि विधि
 H2708

עוֹלָם עוֹלָם
 सदा-की सदा-की
 H5769
 לְדַרְתֵיכֶם לְדַרְתֵיכֶם
 तुम्हारी-पीढ़ियों-में तुम्हारी-पीढ़ियों-में
 H1755
 וּבֵתוֹךְ וּבֵתוֹךְ
 और-के-बीच और-के-बीच
 H8432
 בְּנֵי בְנֵי
 पुत्रों पुत्रों
 H3478
 יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל
 इस्राएल-के इस्राएल-के
 H3478
 לֹא לֹא
 नहीं नहीं
 H3808
 יִנְחִלוּ יִנְחִלוּ
 वे-उत्तराधिकार-पाएंगे वे-उत्तराधिकार-पाएंगे
 H5157
 נַחֲלָה נַחֲלָה
 उत्तराधिकार उत्तराधिकार
 H5159

जो लेवीवंश मिलापवाले तम्बू में काम कर रहे हैं वे इसके विरुद्ध किये गए पापों के लिए उत्तरदायी हैं। यह नियम भविष्य के दिनों के लिए भी रहेगा। लेवीवंशी लोग उस भूमि को नहीं लेंगे जिसे मैंने इस्राएल के अन्य लोगों को दिया है।

24
 כִּי כִּי
 क्योंकि क्योंकि
 H0853
 אֶת- אֶת-
 को- को-
 H0853
 מְעֵשֶׁר מְעֵשֶׁר
 दशमांश दशमांश
 H4643
 בְּנֵי- בְנֵי-
 पुत्रों- पुत्रों-
 H3478
 יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל
 इस्राएल-के इस्राएल-के
 H3478
 אֲשֶׁר אֲשֶׁר
 जो जो
 H3068
 לַיהוָה לַיהוָה
 यहोवा-को यहोवा-को
 H3068
 תְּרוּמָה תְּרוּמָה
 उठाई-भेंट उठाई-भेंट
 H8641
 נָתַתִּי נָתַתִּי
 मैंने-दिया मैंने-दिया
 H5414
 לְלוֹוִים לְלוֹוִים
 लेवीयों-को लेवीयों-को
 H3881

וְיִנְחִלוּ וְיִנְחִלוּ
 वे-उत्तराधिकार-पाएंगे वे-उत्तराधिकार-पाएंगे
 H5157
 לֹא לֹא
 नहीं नहीं
 H3808
 יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל
 इस्राएल-के इस्राएल-के
 H3478
 בְּנֵי בְנֵי
 पुत्रों पुत्रों
 H3478
 לְהֵם לְהֵם
 उनसे उनसे
 H1992
 בֵּין- בֵּין-
 मैंने-कहा मैंने-कहा
 H0559
 אֶת- אֶת-
 को- को-
 H0853
 עַל- עַל-
 इसलिए इसलिए-
 H0853
 לְנַחֲלָה לְנַחֲלָה
 उत्तराधिकार-के-लिए उत्तराधिकार-के-लिए
 H5159

פ
 —
 נַחֲלָה :
 उत्तराधिकार
 H5159

किन्तु इस्राएल के लोगों के पास जो कुछ होगा उसका दसवाँ हिस्सा मुझको देंगे। इस तरह मैं लेवीवंशी लोगों को दसवाँ हिस्सा दूँगा। यही कारण है कि मैंने लेवीवंशीयों के लिए कहा है: वे लोग उस भूमि को नहीं पाएंगे जिसे मैंने इस्राएल के लोगों को देने का वचन दिया है।”

25
 וַיֹּדַבֵּר וַיֹּדַבֵּר
 और-कहा और-कहा
 H1696
 יְהוָה יְהוָה
 यहोवा-ने यहोवा-ने
 H3068
 אֶל- אֶל-
 से- से-
 H0413
 מֹשֶׁה מֹשֶׁה
 मूसा मूसा
 H4872
 לֵאמֹר : לֵאמֹר :
 कहते-हुए कहते-हुए
 H0559

यहोवा ने मूसा से कहा,

26
 וְאֵל- וְאֵל-
 और-से- और-से-
 H0413
 הַלְוִים הַלְוִים
 लेवीयों लेवीयों
 H3881
 תְּדַבֵּר תְּדַבֵּר
 तू-बोलना तू-बोलना
 H1696
 וְאָמַרְתָּ וְאָמַרְתָּ
 और-तू-कहना और-तू-कहना
 H0559
 אֲלֵהֶם אֲלֵהֶם
 उनसे उनसे
 H0413
 כִּי- כִּי-
 जब- जब-
 H3947
 תִּקְחוּ תִקְחוּ
 तुम-लो तुम-लो
 H0854
 מֵאֵת מֵאֵת
 से से
 H0854
 בְּנֵי- בְנֵי-
 पुत्रों- पुत्रों-
 H3478
 יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל
 इस्राएल-के इस्राएल-के
 H3478
 אֶת- אֶת-
 को- को-
 H0853

יְהוָה יְהוָה
 यहोवा-को यहोवा-को
 H3068
 תְּרוּמָת תְּרוּמָת
 उठाई-भेंट उठाई-भेंट
 H8641
 מֵאִתְּם מֵאִתְּם
 उसमें-से उसमें-से
 H0854
 וְהָרַמְתֶּם וְהָרַמְתֶּם
 और-तुम-उठाओ और-तुम-उठाओ
 H0854
 בְּנַחֲלֵיכֶם בְּנַחֲלֵיכֶם
 तुम्हारे-उत्तराधिकार-में तुम्हारे-उत्तराधिकार-में
 H5159
 מֵאִתְּם מֵאִתְּם
 उनसे उनसे
 H0854
 כֹּהֵן כֹּהֵן
 तुम्हें तुम्हें
 H0854
 נָתַתִּי נָתַתִּי
 मैंने-दिया मैंने-दिया
 H5414
 אֲשֶׁר אֲשֶׁר
 जो जो
 H3478
 הַמְּעֵשֶׁר הַמְּעֵשֶׁר
 दशमांश दशमांश
 H4643

מִן- מִן-
 से- से-
 H0854
 הַמְּעֵשֶׁר : הַמְּעֵשֶׁר :
 दशमांश दशमांश
 H4643

